

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06012023-241720
SG-DL-E-06012023-241720असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 5, 2023/पौष 15, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 429
No. 9]	DELHI, THURSDAY, JANUARY 5, 2023/PAUSHA 15, 1944	[N. C. T. D. No. 429

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIमहिला एवं बाल विकास विभाग
(महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ)
अधिसूचना

दिल्ली, 5 जनवरी, 2023

F. No 60 (748)/DWCD/WEC/Misc matter/2018-19/Pt file/19006-20.—महिला और बाल संस्थान (लाइसेंसिंग) अधिनियम, 1956, (1956 की संख्या 105) की धारा 2 की उप धारा (सी) के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली महिला एवं बाल संस्थान (लाइसेंसिंग) नियम, 1960 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं, अर्थात्-

- (1) इन नियमों को "दिल्ली महिला और बाल संस्थान (लाइसेंसिंग) [संशोधन] नियम, 2022" कहा जायेगा।
(2) यह केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में इसके आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
- दिल्ली महिला एवं बाल संस्थान (लाइसेंसिंग) नियम, 1960 के नियम 3 में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"लाइसेंसिंग अथॉरिटी-सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी होंगे।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

कृष्ण कुमार, विशेष सचिव

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
(WOMEN EMPOWERMENT CELL)

NOTIFICATION

Delhi, the 5th January, 2023

F. No. 60 (748)/DWCD/WEC/Misc matter/2018-19/Pt file/19006-20 In exercise of the powers conferred by Section 11 read with Sub section (c) of Section 2 of the Women's and Children's Institutions (Licensing) Act, 1956, (No 105 of 1956), the Hon'ble Lieutenant Governor of the Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to make amendment in Delhi Women's and Children's Institutions (Licensing) Rule, 1960 as following, namely-

1. (1) These rules may be called "Delhi Women's and Children's Institutions (Licensing) [Amendment] Rules, 2022".

(2) It shall come in force in the Union Territory of Delhi from the date of its publication in the official Gazette.
2. In Delhi Women's and Children's Institutions (Licensing) Rules, 1960, in rule 3, the following shall be substituted , namely:-

"Licensing Authority - The Secretary of Department of Women and Child Development, Government of National Capital Territory of Delhi shall be the Licensing Authority for the purpose of this Act."

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

KRISHAN KUMAR, IAS Special Secy.